

थाना समाधान दिवस के अवसर पर सुनी गयी फरियादियों की समस्यायें, प्राप्त हुयी शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण हेतु सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश ।

थाना समाधान दिवस के अवसर पर आज दिनांक **14.01.2023** को जिलाधिकारी महोबा श्री मनोज कुमार की अध्यक्षता में थाना कोतवाली महोबा में व पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह की अध्यक्षता में थाना खन्ना व थाना कबरई में थाना समाधान दिवस का आयोजन हुआ जिसमें फरियादियों से उनकी समस्याओं को मौके पर सुना गया तथा वहां मौजूद संबंधित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए गए ।

इस अवसर पर निर्देशित किया गया कि प्राप्त हुयी सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण तथा शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर किया जाये, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न की जाए जिससे आमजनमानस को बिना वजह परेशान होना पड़े ।

जनपदीय पुलिस व प्रशासन के राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल / थाना पर थाना समाधान दिवस आयोजित कर जनता की समस्याओं को सुना गया तथा प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करते हुए उनके त्वरित व विधिक निस्तारण हेतु संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत निष्पक्ष निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया ।

थाना समाधान दिवस के अवसर पर लोगों की समस्याओं को सुना गया । इस मौके पर प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया शेष शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना खन्ना व थाना कबरई का किया गया औचक निरीक्षण, थाना कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन कर सम्बन्धित को दिये आवश्यक निर्देश..।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा आज दिनांक 14.01.2023 को थाना खन्ना व थाना कबरई जनपद महोबा का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ-सफाई, बंदीगृह व मालखाना आदि को चेक करने के साथ-साथ थाने के शस्त्रागार तथा थाना कार्यालय में रखे महत्वपूर्ण अभिलेखों अपराध रजिस्टर, चुनाव रजिस्टर, ग्राम अपराध रजिस्टर का बारीकी से निरीक्षण करते हुए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना परिसर के निरीक्षण के दौरान बेतरतीब रूप से खड़ी हुयी गाडियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुये सभी गाडियों को तरतीबवार खड़ी करने के निर्देश दिये गये साथ ही मुकदमाती वाहनों से सम्बन्धित गाडियों को क्रमवार खड़ा करते हुये उस वाहन सम्बन्धित मुकदमें को स्पष्ट रूप से अंकित किये जाने के निर्देश दिये गये।

महिला हेल्प डेस्क- मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत व महिला सम्बन्धित शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेने व त्वरित कार्यवाही हेतु थाने में संचालित महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी नगर निकाय चुनाव के सम्बन्ध में पडोसी थानों से सामंजस्य रखते हुये विशेष सतर्कता बरतने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय, थानाध्यक्ष खन्ना श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, प्र0नि0 थाना कबरई श्री बिनोद कुमार सहित थाना हाजा पर नियुक्त अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहे।



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना खन्ना के विवेचकों का अर्दली रुम किया गया, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, लम्बित जांच के शीघ्र निस्तारण हेतु दिये आवश्यक दिशा-निर्देश...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा आज दिनांक 14.01.2023 को थाना खन्ना में थाना समाधान दिवस के उपरान्त विवेचकों का अर्दली रुम क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय की उपस्थिति में किया गया।

अर्दली रुम के दौरान थाना खन्ना के समस्त विवेचकों से लम्बित विवेचनाओं के संबंध में विस्तृत रूप से पूछताछ करते हुये लम्बित विवेचनाओं के कारण की समीक्षा की गई एवं अकारण विवेचनाओं को लम्बित रखने वाले विवेचकों को सख्त हिदायत देते हुए विवेचनाओं का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।

इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनपद में चलाये जा रहे विभिन्न अभियान एवं वांछित/वारंटियों की गिरफ्तारी अभियान की समीक्षा की जिसके क्रम में निर्देशित किया कि रात्रि में चौराहे/तिराहे पर चेकिंग करके अपराधियों के संचरण पर रोक लगाने, अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों का भौतिक सत्यापन करने, अवैध शराब एवं अवैध शस्त्र रखने वालों व क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा महिला संबंधी अपराधों में त्वरित गति से कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गये।



क्षेत्राधिकारी यातायात द्वारा मकर संक्रान्ति के अवसर पर जनपद में भ्रमण कर यातायात व्यवस्था का किया गया औचक निरीक्षण, यातायात व्यवस्था बनाये रखने के दिये आवश्यक निर्देश।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में आज दिनांक 14.01.2023 को मकर संक्रान्ति के अवसर पर जनपद में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाये रखने के लिये क्षेत्राधिकारी यातायात सुश्री हर्षिता गंगवार द्वारा जनपद मुख्यालय में प्रमुख स्थानों का भ्रमण कर यातायात पुलिस कर्मियों की मौके पर मौजदगी की तस्दीक करते हुये ड्यूटियों को चेक किया गया साथ ही जनपद में यातायात व्यवस्था से रूबरू होते हुये औचक निरीक्षक किया गया।

क्षेत्राधिकारी यातायात द्वारा यातायात पुलिस कर्मियों को यातायात व्यवस्था को बनाये रखने के सम्बन्ध में आवश्यक दशा-निर्देश दिये गये।



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों को मिष्ठान वितरण किया गया व मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनायें दी गयीं।

मकर संक्रांति के पावन पर्व के अवसर पर आज दिनांक 14.01.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों से संवाद करत हुये सभी को मिष्ठान वितरण किया गया व मकर संक्रान्ति पर्व की शुभकामनायें दी गयी, पुलिस टीम द्वारा इस महत्वपूर्ण पर्व को अपने घर पर न मना पाने के गम को दूर किये जाने का प्रयास किया गया, इस प्रयास से उनके चेहरे खुशी से खिल उठे और अपनत्व महसूस करते हुए भावुक हो अपनी कांपती हुयी उंगलियों से पुलिस अधीक्षक महोबा के प्रति आभार व्यक्त किया ।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर.के. गौतम, क्षेत्राधिकारी यातायात एवं कार्यालय सुश्री हर्षिता गंगवार व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय मौजूद रहे।



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना खन्ना क्षेत्र के ग्राम प्रहरियों(चौकीदारों) को वितरित किये गये कम्बल-

आज दिनांक 14.01.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा थाना खन्ना का भ्रमण किया गया जिस दौरान वहां मौजूद ग्राम प्रहरियों (चौकीदारों) से पुलिस अधीक्षक द्वारा संवाद स्थापित किया गया व उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी, इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्राम प्रहरियों को उनके कर्तव्यों से अवगत कराते हुये उनके गांव में होने वाली प्रत्येक छोटी/बड़ी घटना की सूचना थाने में दिये जाने के निर्देश दिये गये जिससे थानाक्षेत्र में शान्ति/कानून व्यवस्था बनी रह सके ।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा मकर संक्रान्ति पर्व की शुभकामनायें दी गयी साथ ही शीत ऋतु के दृष्टिगत ग्राम प्रहरियों(चौकीदारों) को कम्बल वितरित किये गये।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय, थानाध्यक्ष खन्ना श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह मौजूद रहे ।



पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में, व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश के नेतृत्व में चलाये जा रहे मफरूर/ वांछित वारन्टी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी में कबरई पुलिस टीम को उस समय एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। जब, प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री विनोद कुमार द्वारा गठित टीम नि० श्री यशवन्त सिंह मय हमराह कां० नईम अहमद द्वारा आज दिनांक 14.01.2023 को मुखबिर खास की सूचना पर 02 नफर वारण्टी / NBW अभियुक्त 1. गोविन्द सिंह पुत्र स्व० धरम सिंह नि०ग्राम गुगौरा थाना कबरई जनपद महोबा उम्र 20 वर्ष 2. अनिल सिंह पुत्र धरम सिंह निवासी ग्राम गुगौरा थाना कबरई जनपद महोबा उम्र 23 वर्ष सम्बन्धित मु०न० 122/22 धारा 457/380/411 भादवि जिसका माननीय न्यायालय द्वारा NBW जारी किया गया था, को पेश दरवाजा अभियुक्तगण वहद ग्राम गुगौरा थाना कबरई जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। बाद गिरफ्तारी अभियुक्तगण को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –
उ०नि० यशवन्त सिंह
का० नईम अहमद
गिरफ्तारी का स्थान:-
पेश दरवाजा अभियुक्तगण वहद ग्राम गुगौरा थाना कबरई जनपद महोबा
गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त
1. गोविन्द सिंह पुत्र स्व० धरम सिंह नि०ग्राम गुगौरा चौकी थाना कबरई जनपद महोबा उम्र 20 वर्ष
2. अनिल सिंह पुत्र धरम सिंह निवासी ग्राम गुगौरा थाना कबरई जनपद महोबा उम्र 23 वर्ष



पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के नेतृत्व में चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी/अपराधी की गिरफ्तारी में कबरई पुलिस टीम को उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। जब प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री विनोद कुमार द्वारा गठित टीम उ०नि० श्री राजेन्द्र प्रकाश मय हमराह कां० सर्वेश कुमार निर्मल के द्वारा मु०अ०सं० 370/22 धारा 363/366/376 भादवि व धारा 4 पाक्सो एक्ट थाना कबरई से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रोहित यादव पुत्र रामेश्वर यादव उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम सुरहा थाना कबरई जनपद महोबा को मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 14.01.2023 समय 11.45 बजे छंगा तिराहा कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। अभियुक्त को बाद गिरफ्तारी जेल भेजा गया।

गिरफ्तारी का स्थान:-

छंगा तिराहा कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

रोहित यादव पुत्र रामेश्वर यादव उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम सुरहा थाना

कबरई जनपद महोबा

बरामद सम्पत्ति –



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० श्री राजेन्द्र प्रकाश
2. कां० सर्वेश कुमार निर्मल

पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आर.के. गौतम के पर्यवेक्षण में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय श्री अजय कुमार अग्रवाल के कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान वांछित /वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारी व अवैध शस्त्र के तहत प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार शुक्ला द्वारा टीम का गठन किया गया जिसमें वरि.उ.नि. सुभाष चन्द्र तिवारी मय हमराह का.चन्दन पांचाल , उ.नि. सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया , म.उ.नि. नीलम देवी मय हमराह कोबरा कर्मचारीगण का.पंकज कुमार व का.अंशुल कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र जांच पेडिंग विवेचना अहकामात, मकर संक्रांति त्यौहार भ्रमण, तलाश वांछित वारंटी के दौरान थाना क्षेत्र से 1.मंगल पुत्र मनप्यारे उम्र करीब 52 वर्ष 2.महेन्द्र सिंह पुत्र मंगल सिंह उम्र करीब 25 वर्ष 3.योगेन्द्र कुमार पुत्र मंगल सिंह उम्र करीब 22 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम अकठौहा थाना चरखारी जनपद महोबा 4. सतीस श्रीवास पुत्र स्वामीदीन श्रीवास उम्र करीब 31 वर्ष निवासी ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा 5. प्रिंस अहिरवार पुत्र हलकुट उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा 6. सिद्धगोपाल पुत्र स्व.विशम्भर उम्र 19 वर्ष निवासी मु.गोविन्दनगर थाना कुलपहाड़ महोबा 7.करन पुत्र हुकुम उम्र 22 वर्ष नि.मु.छोटा रमना थाना चरखारी जनपद महोबा 8. प्रेमचन्द्र राजपूत पुत्र मान सिंह राजपूत उम्र 30 वर्ष 9.राज राजपूत पुत्र देवकरन सिंह राजपूत उम्र 28 वर्ष निवासीगण ग्राम गुढ़ा थाना चरखारी जनपद महोबा को अलग-अलग समय व घटनास्थल पर सम्बन्धित धारा 151/107/116 CRPC में सि0सि0नं0 19/2023, 20/2023 , 20A/2023 व 21/2023 , 22A/2023, 22/2023 , 21A/2023 में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत दिनांक 14.01.23 को गिरफ्तार किया गया | उपरोक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. वरि.उ.नि. सुभाष चन्द्र तिवारी मय हमराह का.चन्दन पांचाल ,
- 2.उ.नि. सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया ,

3.म.उ.नि. नीलम देवी मय हमराह कोबरा कर्मचारीगण का.पंकज कुमार व का.अंशुल कुमार थाना चरखारी जनपद महोबा

नाम पता अभियुक्त :-

- 1.मंगल पुत्र मनप्यारे उम्र करीब 52 वर्ष 2.महेन्द्र सिंह पुत्र मंगल सिंह उम्र करीब 25 वर्ष 3.योगेन्द्र कुमार पुत्र मंगल सिंह उम्र करीब 22 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम अकठौहा थाना चरखारी जनपद महोबा
4. सतीस श्रीवास पुत्र स्वामीदीन श्रीवास उम्र करीब 31 वर्ष 5. प्रिंस अहिरवार पुत्र हलकुट उम्र 20 वर्ष निवासी गण ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा
6. सिद्धगोपाल पुत्र स्व.विशम्भर उम्र 19 वर्ष निवासी मु.गोविन्दनगर थाना कुलपहाड़ महोबा
- 7.करन पुत्र हुकुम उम्र 22 वर्ष नि.मु.छोटा रमना थाना चरखारी जनपद महोबा 8. प्रेमचन्द्र राजपूत पुत्र मान सिंह राजपूत उम्र 30 वर्ष 9.राज राजपूत पुत्र देवकरन सिंह राजपूत उम्र 28 वर्ष निवासीगण ग्राम गुढ़ा थाना चरखारी जनपद महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक **14.01.2023** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह द्वारा मकर संक्रांति, कानून/शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत आमजन से संवाद स्थापित कर कानून व शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी। स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहनो के ई-चालान किये गये।



महोबा पुलिस